



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 903) पटना, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2013

सं0 नि० प्रा०/ नि० 1-03/ 2011 खंड-II-**1258**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **परिशिष्ट-1 में अंकित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन** कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 11.01.2014 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1079 दिनांक 01.10.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.09.2013 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.11.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3)** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 16.12.2013 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-2** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-3** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
 मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1**समितियों की विवरणी जिनके निर्वाचन देय हैं :-**

क्र०	जिला	प्रखंड का नाम	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
1	2	3	4
1	पटना	पटना सदर	द्वारीकापुरी सहकारी गृह निर्माण स.लि., भूतनाथ रोड, इन्कम टैक्स कॉलोनी, पटना
2	पटना	पटना सदर	गाँधी सहकारी गृह निर्माण स.लि., पटना
3	पटना	पटना सदर	एम.आई.जी.कॉलोनी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., कंकड़बाग, वार्ड नं. 34, पटना
4	पटना	पटना सदर	बसंत बिहार उपभोक्ता भंडार लि., पटना
5	पटना	पटना सदर	स्वप्न लोक सहकारी गृह निर्माण स.लि., डी.-115, पुलिस कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20
6	पटना	पटना सदर	गंगा जमुना संगम सहकारी गृह निर्माण स.लि., न्यू पुरन्दरपुर, पटना
7	पटना	पटना सदर	एल.आई.सी.क्लास वन ऑफिसर्स सहकारी गृह निर्माण स.लि.
8	पटना	पटना सदर	बसंत बिहार सहकारी गृह निर्माण स.लि., 56 डी.आई.जी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना
9	पटना	पटना सदर	पटना कालेज थ्रिपट सेविंग एण्ड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सो.लि., पटना
10	पटना	पटना सदर	फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण स.लि., सलेमपुर, डुमरा, फ्रेंड्स कॉलोनी, अनिसाबाद पटना-23
11	पटना	पटना सदर	पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स हाउस कंसट्रक्शन को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि., पटना
12	पटना	पटना सदर	आनंद कमल सहकारी गृह निर्माण समिति लि., पटना
13	पटना	पालीगंज	मित्तल प्राथमिक बुनकर स.स.लि.
14	पटना	पालीगंज	साहीर प्राथमिक बुनकर स.स.लि.
15	गोपालगंज	गोपालगंज	सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ लि., गोपालगंज
16	मधुबनी	रहिका	तिरहुत सहकारी गृह निर्माण स. स. लि.
17	भोजपुर, आरा	आरा सदर	जैन कॉलेज इम्पलाईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि., आरा

परिशिष्ट-2

**परिशिष्ट-1 में उल्लिखित समितियों के
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	16.12.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	31.12.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	02.01.2014 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	03.01.2014 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	11.01.2014 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	11.01.2014 (शनिवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-3

.....समिति,

प्रपत्र-1**सूचना का प्रपत्र**

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... समिति, निबंधन संख्या, पता
.....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

- (ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता है।
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
- है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)
- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक की जायेगी।
(स्थान का नाम)
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।
- (viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

विभिन्न सहकारी/ स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : प्रखंड :

केन्द्रीय/शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति संबद्ध है : समिति का कार्य विवरण:

अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या : संवीक्षा की तिथि : /YYYY

समिति का नाम :

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : प्रखंड :
 मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या :
 कुल मतदाताओं की संख्या :
 समिति का नाम : तिथि : DD/ MM/ YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव				

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

[illegible]

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)				
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)				
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)				
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या				

निर्वाचन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 903-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>